

@shahjahanpurpol

प्रेसनोट सराहनीय कार्य दिनांक – 26.04.21

थाना सिधौली पुलिस द्वारा प्रधान पद प्रत्याशी को लोगो को वोटों के ऐवज में दावत देते किया गिरफ्तार,

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर निर्देशानुसार जनपद मे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 मे अवैध शराब की बिक्री करने वालों प्रत्याशियों द्वारा वोट अपने पक्ष मे देने का प्रलोभन देने के ऐवज मे आम जनता को मिठाई/शराब आदि का वितरण करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री नवनीत कुमार नायक क्षेत्राधिकारी पुवाया के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्र0नि0 थाना सिधौली के कुशल नेतृत्व में सिधौली पुलिस को कामयावी मिली ।

प्र0नि0 जगनारायण पाण्डेय मय पुलिस बल के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 मे अवैध शराब की बिक्री करने वाले तथा प्रधान पद/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी वोट अपने पक्ष मे देने का प्रलोभन देने के ऐवज मे आम जनता को मिठाई/शराब आदि का वितरण करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध मे थाना क्षेत्र मे मामूर थे , जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम काजीपुर मे प्रधान पद प्रत्याशी छोटे खाँ पुत्र मुख्तियार निवासी ग्राम काजीपुर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर गाँव मे टैण्ट लगाकर 150-200 लोगो की दावत कर रहा है । मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके के पर जाकर देखा तो प्रधान पद प्रत्याशी छोटे खाँ उपरोक्त अपने बगार (घेर) मे टैण्ट लगाकर 150-200 व्यक्तियों की दावत अपने पक्ष मे वोट देने के ऐवज मे कर रहा था । तब अभियुक्त छोटे खाँ पुत्र मुख्तियार निवासी ग्राम काजीपुर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर को मय माल के गिरफ्तार कर थाना लाया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

छोटे खाँ पुत्र मुख्तियार निवासी ग्राम काजीपुर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 177/2021 धारा 171E/171F/188/269/270 भादवि, 123 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व 54 आपदा प्रबन्धन अधिनियम ।।

माल बरामदगी।

180 कुर्सी रंग लाल, गैस चूल्हा मय पाइप व रेगुलेटर तीन अदद, रिफाइण्ड तेल दो टिन, भगौना एक अदद मय ढक्कन मय रसगुल्ला (काला) 12 किलोग्राम, प्लाज करीब 15 किलोग्राम, पकौडी बनाने वाली हरी मिर्च एक बोरी मे 20 किलोग्राम, टब स्टील का 03 अदद, बनी हुयी पकौडी मिर्च व आलू की 10 किलोग्राम, मसाले का डिब्बा 2 अदद परात 03 अदद

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम -

- 1-प्रभारी निरीक्षक जगनारायण पाण्डेय थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 2- उ0नि0 रामसुन्दर यादव थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 3- हेड का0 358 राजकिशोर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 4-का0 चालक 1897 प्रदीप शर्मा थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।।